

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2003 (माघ 12, 1924)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2003 (MAGHA 12, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4
[PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2003

सं० 68, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002—राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मधुसूदन श्रीवास्तव को 12000/- रु०-16500/- रु० के वेतनमान में 31 जुलाई, 2002 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 31 अगस्त, 2004 तक या रक्षा राज्य मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्य करने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उपसचिव के स्तर पर रक्षा राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्ता) के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, आयुध निर्माणी, खड़की, पुणे के निर्माण कार्य मैनेजर श्री एच० एस० भाटिया को 16 दिसंबर, 2002 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-

325-15,200 रुपए के वेतनमान में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में संविदा खरीद अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, अनुभाग अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह का कृषि एवं सरकारी मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 5 दिसंबर 2002 के पूर्वाह्न से 6500-10500/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्न-लिखित सहायकों को उनके नाम के सामने दर्शाये गई तारीख से या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

एस० के० मिश्रा, 1 जुलाई, 2002 से 15 अगस्त, 2002 तक।

मधुसूदन काला, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

श्रीमती रेणु सिंह, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

सुखवीर सिंह, 1 जुलाई, 2002 से 30 सितम्बर, 2002 तक ।

नंद किशोर कुमार, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

डी० एस० पठानिया, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

एस० सी० वर्मा, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

एस० सी० टम्हा, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

जगदीश कुमार, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

अश्विनो कुमार, 1 जुलाई, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक ।

के० के० मेहरा, 20 जून, 2002 से 6 सितम्बर, 2002 तक ।

बी० सरस्वती
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 69, दिनांक 1 जनवरी, 2003—थल सेना अनुदेश 37/78, 15/79 तथा इसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कौर

(अल्पकालीन/स्थायी कमीशन)

कैप्टन से अल्प स्थायी मेजर के पद पर

डी एस-11979 एक्स (मिस) शरणजोत मान—20 अगस्त 2002 ।

डी एस-11959 के, प्रिया वर्तन—10 सितम्बर, 2002 ।

डी एस-11961 एफ (मिस) सुरुचि खन्ना—19 सितम्बर, 2002 ।

डी एस-11963 एम, निजिन अग्रवाल—19 सितम्बर, 2002 ।

डी एस-11964 पी, पी० एच० बलवंत—23 सितम्बर, 2002 ।

डी एस-10473 एम, पराग दुआ—30 सितम्बर, 2002 ।

लैफ्टिनेंट से अल्प स्थायी कैप्टन के पद पर

ए० मिसूरिया (डी० एस-12016 एक्स)—15 नवम्बर, 2000 ।

जे० एल० शर्मा
ले० जनरल
डी० जी० डी० एस०

तटरक्षक मुख्यालय

सं० 70, दिनांक 2 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति निम्नलिखित को, तटरक्षक सहायक कमांडेंट जी डी/ तकनीकी के पद पर, प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाई गयी तारीख से नियुक्त करते हैं :—

नाम, नियुक्ति, कार्य ग्रहण तिथि और आर्वाइव्ड व्यक्तिगत नं०

सामान्य ड्यूटी :—

(क) श्वेताम्बर भट्टा, तटरक्षक में वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 15 जुलाई, 2002 0600-एम ।

(ख) अजय चतुर्वेदी, तटरक्षक में 2 वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 15 जुलाई, 2002—0601—पी ।

(ग) नवदीप सकाया, तटरक्षक में 2 वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 15 जुलाई, 2002—0602-क्यू ।

(घ) अरविंद कुमार त्यागी तटरक्षक में 02 वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 15 जुलाई, 2002—0603-एस ।

तकनीकी

(च) सज्जन एंटोनी, तटरक्षक में 02 वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 16 अगस्त, 2002—4119-एल ।

(छ) एम० ए० डेनिस, तटरक्षक में 02 वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 16 अगस्त, 2002—5072-सी ।

(ज) एम० के० चौधरी, तटरक्षक में 02 वर्ष की परी-वीक्षाधीन अवधि पर रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त, 29 अक्टूबर, 2002—5073-डी ।

एम० एन० सुकुमारम
अवर सचिव (कामिक)

संख्या 71, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (81) के अधिकारी श्री विनय कुमार साहनी के रक्षा राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्ता) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 24 दिसम्बर, 2002 से 23 दिसम्बर, 2003 तक अथवा जब तक वे रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद न कर दें या अगले आदेश जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो, और अग्रे बढ़ाते हैं।

जी० सरस्वती
अवर सचिव

सं० 72, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002—रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर संविदा खरीद अधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी श्री विजय मित्तल की सेवाएं, उनके बड़े हुए कार्यकाल की समाप्ति पर, 16 दिसम्बर, 2002 (पूर्वाह्न) से आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता को सौंपी जाती हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री एन० के० नागर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 21 के तहत श्रम मंत्रालय में स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप 16 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से उनकी सेवाएं श्रम मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

जी० सरस्वती
अवर सचिव

थल सेना विभाग)

सं० 73, दिनांक 27 दिसम्बर, 2002—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार देव शमसेर सुब्बा (जे सी-182468-एम)
—1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार महादेव माने (जे सी-168599-एम)
—अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार ज चन्द्र शेखर जोशी (जे सी-203757-एक्स)
—1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार भंवर लाल (जे सी-448178-एफ)
1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे सी-199186-के)
1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार राज पाल (जे सी-206190-एक्स)
1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार वाडककुम्पुरिईन चाको थोमस (जे सी-840387-एक्स)—1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार एम० ए० देवासी (जे सी-840399-एम)
—1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार सुब्रामनियम पी० (जे सी-840414-डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार फिजोरोस पी जे (जे सी-840416-एफ)—1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार अयोध्या सिंह (जे सी-840328-एल)—
1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे सी-840320-वाई)—
1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार श्यार (जे सी-840322-के)—1 अप्रैल,
2002।

नायब सूबेदार गोविन्द यादव (जे सी-840324-टी)—
1 अप्रैल, 2002।

नायब सूबेदार जगत नाथ (जे सी-202113-एल)—
1 मई, 2002।

नायब सूबेदार कृष्णा आर० (जे सी-177329अव ई)—
1 मई, 2002।

नायब सूबेदार दीना नाथ वर्मा (जे सी-211318-एफ)
—1 मई, 2002।

नायब सूबेदार भास्कर नारायण झा (जे सी-156803-एन)
—1 मई, 2002।

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जे सी-186023-क्स)—
1 मई, 2002।

नायब सूबेदार हरि किशन सिंह बेराहा (जे सी-660516-के)—1 मई, 2002।

जी० के० चानन
उप सचिव

सं० 74, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कोर

(यांत्रिक परिवहन)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गोपाल सिंह (जे सी-660016-ए)—13-09-2002/
01-09-2002।*

सूबेदार श्याम किशोर (जे सी-660834-एन)—
10-09-2002/01-09-2002।**

सूबेदार मोहम्मद हफीज़ूर रहमान (जे सी-660717-एच)—20-09-2002/01-09-2002।@

सूबेदार राम देव सिंह (जेसी-660724-वाई)—
01 अक्टूबर 2002

सूबेदार शशी भूषण प्रसाद सिंह (जेसी-660770-एन)
—01 नवम्बर 2002

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।)

** (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।)

@ (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।)

कोर ग्राफ सिगनल्स

स्थायी सूबेदार (वाई आफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार सुरज भान (जेसी-371926-एफ)—01
सितम्बर 2002

स्थायी सूबेदार (एफ ग्राफ एस) के रैंक में

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-370509-एच)—
—01 सितम्बर 2002

स्थायी सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-372629-एन)—01
जुलाई 2002

स्थायी सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार जायन के एन (जेसी-371647-डब्ल्यू)—
01 जुलाई 2002

नायब सूबेदार सन्तन सिंह (जेसी-371749-एम)—02
जुलाई 2002

स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जे ए राव गनपति (जेसी-371473-एफ)—
01 अगस्त 2001

नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद राय (जेसी-372098-एन)—
01 जून 2002

नायब सूबेदार राम करन जांगीर (जेसी-372107-के)—
—01 जून 2002

नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-372118-डब्ल्यू)—
01 जून 2002

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-372124-के)—01
जुलाई 2002

नायब सूबेदार गोवर्धन सिंह (जेसी-372128-ए)—01
अगस्त 2002

नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-372250-डब्ल्यू)
—01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार आर प्रसाद सिंह (जेसी-372256-एक्स)—
01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार आसिप्त कुमार पोद्दार (जेसी-372293-
एल)—01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-372295-डब्ल्यू)
—01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार पुष्प राज के (जेसी-372296-वाई)—
01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-372335-एम)
—01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-372336-पी)—01
सितम्बर 2002

नायब सूबेदार श्री कुमार नाथर टी के (जेसी-372337-
एक्स)—01 सितम्बर 2002

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी० डी०) के पद में

सूबेदार राम अवध (जे सी-223876 पी)—20 अगस्त,
2002/1 जून, 2002।*

सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जे सी-186575 एल)—1
अगस्त, 2002।

सूबेदार मनजीत सिंह (जे सी-197886 वाई)—16
अक्टूबर, 2002/1 अक्टूबर, 2002।*

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार प्रसांता कुमार चक्रवर्ती (जे सी-297490 के)
—6 अगस्त, 2002/1 फरवरी, 2002।*

नायब सूबेदार केवल सिंह (जे सी-297070 के)—31
मार्च, 2002/1 मार्च, 2002।*

नायब सूबेदार राम हर्ष सिंह यादव (जे सी-297184 पी)
—18 जून, 2002/1 मार्च, 2002।

नायब सूबेदार मल्लप्पा गनाचारी (जे सी-296420 वाई)
—15 जून, 2002/15 मार्च, 2002।*

नायब सूबेदार केशवानंद (जे सी-296640 एच)—1
अप्रैल, 2002।*

नायब सूबेदार ब्रोजेद्र नाथ मंडल (जे सी-297176
डब्ल्यू)—14 मई, 2002/1 मई, 2002।*

नायब सूबेदार विजय कुमार (जे सी-290161 एन)—
1 मई, 2002।

नायब सूबेदार पासांग तमंग (जे सी-297199 वाई)—
19 जुलाई, 2002/1 मई, 2002।*

नायब सूबेदार अरुन कुमार सिंह (जे सी-297210 एल)
—1 जून, 2002।

नायब सूबेदार विनोद कुमार जेसी-297553 एफ) —
15 जून, 2002/1 जून, 2002 ।*

नायब सूबेदार दिना बंशु मंडल (जे सी-296444 एच) —
—8 जुलाई, 2002/1 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह (जे सी-297173 एच) —7
जुलाई, 200 /1 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार राम दत्त प्रसाद (जे सी-297181 एफ) —
7 जुलाई, 2002/1 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार रमेश राय प्रसाद (जे सी-297360 एफ)
—1 जुलाई, 2002 ।

नायब सूबेदार गोठ चंद्र सरकार (जे सी-297713 डब्ल्यू)
—14 अगस्त, 2002/1 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार कंवर सिंह यादव (जे सी-297719 एक्स)
—12 अक्टूबर, 2002/1 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जे सी-297833 पी) —
15 अगस्त, 2002/1 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार संकरा नारायणन एस० (जे सी-297844
एफ) —30 सितम्बर, 2002/3 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार रत्न सिंह शर्मा (जे सी-296964 एन) —
1 अगस्त, 2002/10 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार किसान चिटु देसाई (जे सी-297830 एफ)
—13 अगस्त, 2002/10 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार बिधी चंद (जे सी-297673 ए) —26
अगस्त, 2002/15 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार विरेंद्र राम (जे सी-297740 ए) —
8 सितम्बर, 2002/15 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार राजन टि० बी० (जे सी-297859 के) —
2 सितम्बर, 2002/15 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार आर० रामा मुर्शी (जे सी-296872 एफ)
—23 सितम्बर, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार ए० पाछा (जे सी-297621 के) —2 सितम्बर
2002/20 जुलाई, 2002* ।

नायब सूबेदार मोहनन के० (जे सी-297692 एल) —
28 अगस्त, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार ए० पछीअप्पन (जे सी-297660 एच) —
28 अगस्त, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार विजयन पी० एन० (जे सी-297711 एल)
—2 सितम्बर, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार बाबू राजेंद्र प्रसाद एस० (जे० सी-297780
एफ) —20 अगस्त, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार रामा मुर्शी आर० (जे सी-297781 के) —
27 अगस्त, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार दासप्पन पिल्लै जी (जे सी-297786 एच)
—27 अगस्त, 2002/20 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार रवि नारायण मल्लीक (जे सी-297814
के) —13 सितम्बर, 2002/25 जुलाई, 2002 ।*

नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जे सी-297700 वाई) —
16 अक्टूबर 2002/31 जुलाई 2002 ।*

नायब सूबेदार श्री कुमारा पिलै जी (जे सी-297656 ए)
—08 अक्टूबर 2002/31 जुलाई 2002 ।*

नायब सूबेदार महेश्वर सिंह (जे सी-297736 एक्स) —
10 सितम्बर 2002/31 जुलाई 2002 ।*

नायब सूबेदार भंवर लाल (जे सी-297754 ए) —07
अक्टूबर 2002/31 जुलाई 2002 ।*

नायब सूबेदार सुखदेव राज (जे सी-296836 डब्ल्यू) —
15 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार काली प्रसाद (जे सी-296902 एन) —
31 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार ओम दत्त शर्मा (जे सी-297270 ए) —
25 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार गुरा सिंह (जे सी-297132 वाई) —
06 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जे सी-297192 एन) —07
सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार एस मुकुण्डन (जे सी-297251 पी)
—27 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे सी-297203 बी) —08
सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार शारदा प्रसाद (जे सी-297216 एम) —
01 अगस्त 2002 ।

नायब सूबेदार टिका राम (जे सी-297320 ए) —07
सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार लक्ष्मी लाल नाई (जे सी-297324
डब्ल्यू) —23 सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार मनबर सिंह (जे सी-297388 एफ) —
22 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जे सी-297484 डब्ल्यू) —
21 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार श्याम नारायण राम (जे सी-297548
डब्ल्यू) —18 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार सदाशिव शंकर चौधुरा (जे सी-297555
एम) —19 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002 ।*

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-297578 एन) —
14 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002।*

नायब सूबेदार युधवीर सिंह (जेसी-297612एच) —
18 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002।*

नायब सूबेदार ब्राह्म प्रकाश (जेसी-297261वाई) —
04 अक्टूबर 2002/08 अगस्त 2002।*

नायब सूबेदार गजराज सिंह (जेसी-297517 डब्ल्यू) —
14 सितम्बर 2002/28 अगस्त 2002।*

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए०आई०जी०) के पद में

नायब सूबेदार नरेन्द्र पाल (जेसी-297164एफ) —
01 अगस्त 2002।

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-297125एच) —
01 अगस्त 2002।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-297165के) —
01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार भूपाल दत्त (जेसी-297084के) —
01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार गोपालकृष्णन बी० (जेसी-297166एम) —
01 नवम्बर 2002।

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार रविन्द्रन पी० (जेसी-296343पी) —
01 अगस्त 2002।

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-296344एक्स) —
01 अगस्त 2002।

नायब सूबेदार रूप नारायण (जेसी-296347एल) —
02 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002।*

नायब सूबेदार सुरत सिंह यादव (जेसी-296348एन) —
01 अक्टूबर 2002।

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्वेदी, अवर सचिव

सं० 75, दिनांक 02 जनवरी 2003—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में

(समय मान) द्वारा

आईसी-35341 एम० पी० श्रीजयन एओसी—10 जून
1999।

एस एल-02838 एम० एल० शर्मा, ए पी टी सी—27
जुलाई 2001।

एस एस सिन्हा
उप निदेशक सेना सचिव

सं० 76, दिनांक 02 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नति करते हैं:—

थल सेना विभाग

स्थाई कमीशन

ले० कर्नल से ग्रुप कैप्टन

एस० के० घोसाल (एम आर-4825) (वा०से०-24720)—
05-08-1998 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव
डाले काल्पनिक ज्येष्ठता 01-12-1997 से दी जाती है।

के०बी०एन०एस० डोड,
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (कार्मिक)

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं० 77, दिनांक 27 दिसम्बर, 2002—राष्ट्रपति, महोदय
ग्रुप कैप्टन महेश गुप्ता (12879) ए० ई० (एल) (कार्यकारी
संवेतन रैंक में) को, जो स्थाई रूप से वैमानिक गुणता आश्वासन
महानिदेशालय में उप-नियुक्त हैं, उसी स्थापना में 24 सितम्बर,
1997 से ग्रुप कैप्टन के मूल पद पर प्रोन्नत करते हैं।

राष्ट्रपति महोदय विंग कमान्डर जे० साहू (16324 एन)
ए० ई० (एल) (कार्यकारी संवेतन रैंक में) को, जो स्थाई रूप
से वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय में उप-नियुक्त हैं,
उसी स्थापना में 1 फरवरी, 2000 से विंग कमान्डर के मूल
पद पर प्रोन्नत करते हैं।

वी० सेतूभाषवन
अवर सचिव (एच० ए० एल०)

संख्या 78, दिनांक 26 दिसम्बर 2002—राष्ट्रपति,
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में
संयुक्त सचिव श्री एस० पी० कुटार को अधिवाषिता की आयु
पूरी होने पर उन्हें 31 दिसम्बर, (अपराह्न) से सेवानिवृत्त
करते हैं।

वी० सरस्वती
अवर सचिव

सेना शाखा

महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 79, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002—राष्ट्रपति महोदय श्री डी० के० एस० कुन्ड अनुभाग अधिकारी (सं० से० मु० सिविल सेवायें), महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर दि० 30 नवम्बर, 2002 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त करते हैं, अतः उनका मामला दि० 1 दिसम्बर, 2002 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किया जाता है।

सन्तोष दास गुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशासन)

थल सेना शाखा

सं० 80, दिनांक 2 जनवरी, 2003—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अल्प सेवा कमिशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश एस० ए० आई० 1/93 के अन्तर्गत उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त करते हैं। अधिकारियों को नियमित आरक्षण श्रेणी—(एस) में उनकी मुक्ति की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये अथवा उनकी आयु 40 वर्ष होने तक दोनों में जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाए:—

नियमित सेना

अल्प सेवा कमिशन

लैफ्टिनेंट, गंगाधर पी० (एस एस-36521) इन्जीनियर्स—
6 अप्रैल, 2001।

लै० संदीप गोस्वामी (एस० एस०-36525), ई० एम० ई०—
6 अप्रैल 2001।

लै० मधु जी दिनेश (एस० एस-36513), सिग्नल्स—
25 जुलाई, 2001।

लै० हरगुरजीत सिंह मालही (एस एस-36357), सिग्नल्स—
26 अगस्त, 2000।

लै० हिमांशु शर्मा (एस एस-36360), इन्जीनियर्स—
26 अगस्त, 2000।

लै० सुमीत जानु (एस एस-36365) सिग्नल्स—23
सितम्बर, 2000।

लै० एल० एन० सम्पत कुमार (एस एस-36405),
ई० एम० ई०—24 सितम्बर, 2000।

लै० कृष्णा कुमार पालीवाल (एस एस-36514), सिग्नल्स—
6 अप्रैल, 2001।

लै० प्रदीप कुमार के० पी० (एस एस-36517), ई० एम०
ई०—6 अप्रैल, 2001।

लै० आर० श्रीनिवास (एस एस-36008), ई० एम० ई०
17 सितम्बर, 1999।

लै० प्रदीप वारियर (एस एस-36526), इन्जीनियर्स—
7 मई, 2001।

लै० सोनाजी नितिन पाटूरंग (एस एस-36529),
इन्जीनियर्स—3 जून, 2001।

लै० प्रशान्त वीर सिंह (एस एस-36002), सिग्नल्स—
20 जून, 2001।

ए० के० एस० चौहान
कर्मल

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st February 2003

No. 68, dated 26 Dec 02.—The President is pleased to appoint Shri Madhusudan Srivastava, Himachal Pradesh Administrative Service, as Officer on Special Duty to Raksha Rajya Mantri (Prof. Chaman Lal Gupta) at the level of Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-16500/- with effect from the forenoon of 31st July, 2002 for the balance period of tenure of three years i.e. upto 31-8-2004 or till he ceases to function as OSD to RRM or until further orders, whichever event occurs earlier.

The President is pleased to appoint Shri Bhatia, Works Manager, Ammunition Factory, Kirkee, Pune, as Contract Purchase Officer in the Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 6th December, 2002 on deputation basis for a period of three years or till further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Surendra Singh, Section Officer, on transfer from Ministry of Agriculture & Cooperation, as Section Officer in the Ministry of Defence in the pay scale of Rs. 6500-10500/- with effect from the forenoon of 5th December 2002.

The President is pleased to appoint the following Assistants borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officer in the same Ministry on ad-hoc basis for the period mentioned against each of them or until further orders, whichever is earlier:—

Name of the Officers, From, To

S/Shri

S.K. Mishra 1-7-2002, 15-8-2002

M. S. Kala 1-7-2002, 31-12-2002

Smt. Renu Singh 1-7-2002, 31-12-2002

Sukhbir Singh 1-7-2002, 30-9-2002

N. K. Kumar 1-7-2002, 31-12-2002

D. S. Pathania 1-7-2002, 31-12-2002

S. C. Verma 1-7-2002, 31-12-2002

S. C. Tamta 1-7-2002, 31-12-2002

Jagdish Kumar 1-7-2002, 31-12-2002

Ashwani Kumar 1-7-2002, 31-12-2002

K. K. Mehra 20-6-2002, 6-9-2002

V. SARASWATHY
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 69, dated 01 Jan 03.—The President is pleased to make the following appointment (DPC/SSC) under AI 37/78, 15/79 as amended vide AI 4/96 and 5/96 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(DIRECT PERMANENT/SHORT SERVICE COMMISSION)

Captain to be Quasi Substantive Major

DS-11979X (Ms) Sharanjot Mann, 20-08-02

DS-11959K Priya Veer, 10-09-02

DS-11961F (Ms) Suruchi Khanna, 19-09-02

DS-11963M Nitin Agarwal, 19-09-02

DS-11964P PH Balwant, 23-09-02

DS-10473M Parag Dua, 30-09-02

Lieut to be Quasi Substantive Capt

A Misuriya (DS-12016X), 15-11-2002

J L SHARMA
Lt Gen
DGDS

COST GUARD HEADQUARTERS

No. 70, dated 2nd January 2002.—The President is pleased to appoint following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each :—

Name, Appointment, Date of Joining & P. No. Allotted

S/Shri

General Duty

Shwetakam Bhadra, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 15 Jul 2002, 0600-M.

Ajay Chaturvedi, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 15 Jul 2002, 0601-P.

Navdeep Safaya, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 15 Jul 2002, 0602-Q.

Arvind Kumar Tyagi, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 15 Jul 2002, 0603-S.

Technical

Sajun Antony, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 16 Aug 2002, 4119-L.

MA Dennis, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 16 Aug 2002, 5072-C.

MK Chaudhary, Appointed as Asst Comdt in Coast Guard on probation for 02 years in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/-, 29 Oct 2002, 5073-D.

M. N. SUKUMARAN
Under Secy. (Pers)

No. 71, dated 26th December 2002.—The President is pleased to extend central deputation tenure of Shri Vinay Kumar Sahni, IDAS (81) as Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (Prof. Chaman Lal Gupta) at the level of Director from 24-12-2002 to 23-12-2003 or till he ceases to function as Private Secretary to RRM or until further orders, whichever event takes place the earliest.

V. SARASWATHY
Under Secy.

No. 72, dated 26th December 2002.—On completion of his extended tenure, the services of Shri Vijay Mittal, IOFS, working as Contact Purchase Officer on deputation basis in the Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ordnance Factory Board, Kolkata w.e.f. 15-12-2002 (F/N).

Consequent upon his transfer to the Ministry of Labour in terms of Rule 21 of CSS Rules, 1962, the services of Shri N. K. Nagar, Section Officer, Ministry of Defence, are placed at the disposal of Ministry of Labour with effect from the afternoon of 16th December, 2002.

V. SARASWATHY
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 73, dated 27 Dec 2002.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Deo Shamser Subba (JC-182468M), 01 Apr 2002.

Nb Sub Mahadeo Mane (JC-168599M), 01 Apr 2002.

Nb Sub Chandra Shekhar Joshi (JC-203757X), 01 Apr 2002.

Nb Sub Bhanwar Lal (JC-448178F), 01 Apr 2002.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-199186K), 01 Apr 2002.

Nb Sub Rajpal (JC-206190X), 01 Apr 2002.

Nb Sub Vadakkumuriyil Chacko Thomas (JC-840387X), 01 Apr 2002.

Nb Sub MA Devassy (JC-840399M), 01 Apr 2002.

Nb Sub Subramanian P (JC-840414W), 01 Apr 2002.

Nb Sub Philipose PJ (JC-840416F), 01 Apr 2002.

Nb Sub Ayodhya Singh (JC-840328L), 01 Apr 2002.

Nb Sub Joginder Singh (JC-840320Y), 01 Apr 2002.

Nb Sub Shyar (JC-840322K), 01 Apr 2002.

Nb Sub Govind Yadav (JC-840324P), 01 Apr 2002.

Nb Sub Jagan Nath (JC-202113L), 01 May 2002.

Nb Sub Krishna R (JC-177329Y), 01 May 2002.

Nb Sub Dina Nath Verma (JC-211381F), 01 May 2002.

Nb Sub Bhagya Narain Jha (JC-156803N), 01 May 2002.

Nb Sub Hardev Singh (JC-186023X), 01 May 2002.

Nb Sub Hari Kishan Singh Devraha (JC-660516K), 01 May 2002.

G. K. CHANANA
Dy. Secy.

No. 74, dated 26 Dec 2002.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY SERVICE CORPS
(MECHANICAL TRANSPORT)

To be Subedar Major (MT)

Subedar Gopal Singh (JC-660716A), 13-09-2002/01-09-2002.*

Subedar Shyam Kishor (JC-660834N), 10-09-2002/01-09-2002.*

Subedar Md Hafizur Rahman (JC-660717H), 20-09-2002/01-09-2002.*

Subedar Ram Deo Singh (JC-660724Y), 01-10-2002.

Subedar Sashi Bhushan Prasad Singh (JC-660770N), 01-11-2002.

*(Gtd seniority in the rank of Sub Major without effect on pay & allee).

CORPS OF SIGNALS

To be Substantive Subedar (Y of S)

Nb Sub Suraj Bhan (JC-371926F), 21st Sep 2002.

To be Substantive Subedar (F of S)

Nb Sub Narendra Kumar (JC-370509H), 1st Sep 2002.

To be Substantive Subedar (OP Ciph)

Nb Sub Suresh Kumar (JC-372629N), 1st July 2002.

To be Substantive Subedar (OP Spec)

Nb Sub Jayan K N (JC-371647W), 1st July 2002.

Nb Sub Santan Singh (JC-371749M), 2nd July 2002.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub JA Rao Ganpati (JC-371473F), 1st Aug 2001.

Nb Sub Devendra Prasad Roy (JC-372098N), 1st June 2002.

Nb Sub Ram Karan Jangir (JC-372107K), 1st June 2002.

Nb Sub Sudarshan Singh (JC-372118W), 1st June 2002.

Nb Sub Hem Raj (JC-372124K), 1st July 2002.

Nb Sub Govardan Singh (JC-372128A), 1st Aug 2002.

Nb Sub Devendra Prasad Singh (JC-372250W), 1st Sep 2002.

Nb Sub R Prasad Singh (JC-372256X), 1st Sep 2002.

Nb Sub Asis Kumar Poddar (JC-372293L), 1st Sep 2002.

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-372295W), 1st Sep 2002.

Nb Sub Pushpa Raj K (JC-372296Y), 1st Sep 2002.

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-372335M), 1st Sep 2002.

Nb Sub Harish Chandra (JC-372336P), 1st Sep 2002.

Nb Sub Sree Kumaran Nair T K (JC-372337X), 1st Sep 2002.

CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Ram Awadh (JC-223876P), 20 Aug 2002/01 Jun 2002.*

Subedar Jai Prakash Singh (JC-186575L), 01 Aug 2002.

Subedar Manjit Singh (JC-197886Y), 16 Oct 2002/01 Oct 2002.*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Prasanta Kumar Chakrabarty (JC-297490K), 06 Aug 2002/01 Feb 2002.*

Nb Sub Kewal Singh (JC-297070K), 31 Mar 2002/01 Mar 2002.*

Nb Sub Ram Harsh Singh Yadav (JC-297184P), 18 Jun 2002/01 Mar 2002.*

Nb Sub Mallappa Gnachary (JC-296420Y), 15 Jun 2002/15 Mar 2002.*

Nb Sub Keshaw Nand (JC-296640H), 01 Apr 2002.

Nb Sub Brojendra Nath Mandal (JC-297176W), 14 May 2002/01 May 2002.*

Nb Sub Vijay Kumar (JC-297161N), 01 May 2002.

Nb Sub Pasang Tamang (JC-297199Y), 19 Jul 2002/01 May 2002.*

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-297210L), 01 Jun 2002.

Nb Sub Vinod Kumar (JC-297553F), 15 Jun 2002/01 Jun 2002.*

Nb Sub Dina Bandhu Mondal (JC-296444H), 08 Jul 2002/01 Jul 2002.*

Nb Sub Harendra Singh (JC-297173H), 07 Jul 2002/01 Jul 2002.*

Nb Sub Ram Datt Prasad (JC-297181F), 07 Jul 2002/01 Jul 2002.*

Nb Sub Ramesh Ray Prasad (JC-297360F), 01 Jul 2002.

Nb Sub Gour Chandra Sarkar (JC-297713W), 14 Aug 2002/01 Jul 2002.*

Nb Sub Kanwar Singh Yadav (JC-297719X), 12 Oct 2002/01 Jul 2002.*

Nb Sub Pradeep Kumar (JC-297833P), 15 Aug 2002/01 Jul 2002.*

Nb Sub Sankara Narayanan S (JC-297844F), 30 Sep 2002/03 Jul 2002.*

Nb Sub Rattan Singh Sharma (JC-296964N), 01 Aug 2002/10 Jul 2002.*

Nb Sub Kisan Chintu Desai (JC-297830F), 13 Aug 2002/10 Jul 2002.*

Nb Sub Bidhi Chand (JC-297673A), 26 Aug 2002/15 Jul 2002.*

Nb Sub Virender Ram (JC-297740A), 08 Sep 2002/15 Jul 2002.*

Nb Sub Rajan TV (JC-297859K), 02 Sep 2002/15 Jul 2002.*

Nb Sub R Rama Moorthy (JC-296872F), 23 Sep 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub A Patcha (JC-297621K), 02 Sep 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub Mohanan K (JC-297692L), 28 Aug 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub A Pachiappan (JC-297660H), 28 Aug 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub Vijayan PN (JC-297711L), 02 Sep 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub Babu Rajendra Prasad S (JC-297780F), 20 Aug 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub Rama Moorthy R (JC-297781K), 27 Aug 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub Desappan Pillai G (JC-297786H), 27 Aug 2002/20 Jul 2002.*

Nb Sub Rabi Narayan Mallick (JC-297814K), 13 Sep 2002/25 Jul 2002.*

Nb Sub Mahipal Singh (JC-297700Y), 16 Oct 2002/31 Jul 2002.*

Nb Sub Sree Kumara Pillai G (JC-297656A), 08 Oct 2002/31 Jul 2002.*

Nb Sub Maheswar Singh (JC-297736X), 10 Sep 2002/31 Jul 2002.*

Nb Sub Bhanwar Lal (JC-297754A), 07 Oct 2002/31 Jul 2002.*

Nb Sub Sukhdev Raj (JC-296836W), 15 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Kali Prasad (JC-296902N), 31 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Om Dutt Sharma (JC-297270A), 25 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Gura Singh (JC-297132Y), 06 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Surinder Singh (JC-297192N), 07 Sep 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub S Murugesan (JC-297251P), 27 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Amar Singh (JC-297203P), 08 Sep 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Sharda Prasad (JC-297216M), 01 Aug 2002.

Nb Sub Tika Ram (JC-297320A), 07 Sep 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Laxmi Lal Nai (JC-297324W), 23 Sep 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Manwar Singh (JC-297388F), 22 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Mahaveer Singh (JC-297484W), 21 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Shyam Narayan Ram (JC-297548W), 18 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Sadashiv Shankar Chougula (JC-297555M), 18 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Kashmir Singh (JC-297578N), 14 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Yudhbir Singh (JC-297612H), 18 Aug 2002/01 Aug 2002.*

Nb Sub Braham Prakash (JC-297261Y), 04 Oct 2002/08 Aug 2002.*

Nb Sub Gajraj Singh (JC-297517W), 14 Sep 2002/28 Aug 2002.*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Narendra Pal (JC-297164F), 01 Aug 2002.

Nb Sub Raj Kumar (JC-297125H), 01 Aug 2002.

Nb Sub Suresh Kumar (JC-297165K), 01 Sep 2002.

Nb Sub Bhupal Datt (JC-297084K), 01 Sep 2002.

Nb Sub Kopalakrishnan V (JC-297166M), 01 Nov 2002.

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Ravindran P (JC-296343P), 01 Aug 2002.

Nb Sub Amrik Singh (JC-296344X), 01 Aug 2002.

Nb Sub Rup Narayan (JC-296347L), 02 Sep 2002/01 Sep 2002.*

Nb Sub Surat Singh Yadav (JC-296348N), 01 Oct 2002.

*(Gtd ante-date seniority wef).

RAJENDRA CHATURVEDI
Under Secy.

No. 75, dated 2nd January 2003.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

IC-35341 MP Sreejayan, AOC, 10 Jun 1999.

SL-02838 ML Sharma, APTC, 27 Jul 2001.

S. S. SINHA
Dy. Dir.
DAMS-8A

No. 76, dated 2nd January 2003.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Gp Capt

SK Ghosal (MR-4825) (AF-24720), 05-08-98 with notional seniority without effect on pay add pension from 01-12-97.

K. B. N. S. DOD
Brigadier
Dy. DGAFMS (P)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL
QUALITY ASSURANCE

No. 77, dated 27th December 2002.—The President is pleased to promote Group Captain Mahesh Gupta (12878G) AE (L) (Acting paid rank), permanently seconded to DGAQA, to substantive Group Captain in the same establishment w.e.f. 24 September 1997.

The President is pleased to promote Wing Commander J Sahu (16324-N) AE(L) (Acting paid rank), permanently seconded to DGAQA, to substantive Wing Commander in the same establishment w.e.f. 01 Feb 2000.

V. SETHUMADHAVAN
Under Secy. (HAL)

No. 78, dated 26th December 2002.—The President is pleased to retire Shri S. P. Kutar, CSS, Joint Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31-12-2002 (A/N) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY
Under Secy.

ARMY BRANCH
DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET
CORPS

No. 79, dated 26th December 2002.—The President is pleased to retire Shri D. K. S. Kundu, Section Officer, DGNCC of AFHQ Civil Services on attaining the age of superannuation with effect from 30-11-2002 (A/N) and transfer to Pension establishment with effect from 01-12-2002 (F/N).

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer (A)

ARMY BRANCH

No. 80, dated 2nd January 2003.—The President is pleased to release the undermentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with SAI 1/93, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or upto the age of 40 years whichever is earlier :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

- Lt Gangadhar P (SS-36521), Engr, 06-04-01.
Lt Sandeep Goswami (SS-36525), EME, 06-04-01.
Lt Madhu G Dinesh (SS-36513), Sigs, 25-07-01.
Lt Hargurjit Singh Malhi (SS-36357), Sigs, 26-08-00.
Lt Himanshu Sharma (SS-36360), Engr, 26-08-00.

Lt Sumit Janu (SS-36365), Sigs, 23-09-00.

Lt LN Sampath Kumar (SS-36405), EME, 24-09-00.

Lt Krishna Kumar Paliwal (SS-36514), Sigs, 06-04-01.

Lt Pradeep Kumar KP (SS-36517), EME, 06-04-01.

Lt R Srinivas (SS-36008), EME, 17-09-99.

Lt Pradeep Warriar (SS-36526), Engrs, 07-05-01.

Lt Sonaje Nitin Pandurang (SS-36529), Engr, 03-06-01.

Lt Prashant Veer Singh (SS-36002), Sigs, 20-06-01.

A. K. S. CHAUMAN

Col

Col MS